

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

25451-EN-V-B

**BCA IV SEMESTER [MAIN/ATKT] EXAMINATION
MAY - JUNE 2025**

**ENGLISH LANGUAGE
[Accounting and Tally]
[Vocational Course]**

[Max. Marks : 60]

[Time : 2:00 Hrs.]

Note : All THREE Sections are compulsory. Student should not write any thing on question paper.
नोट : सभी तीन खण्ड अनिवार्य हैं। विद्यार्थी प्रश्न-पत्र पर कुछ न लिखें।

[Section - A]

This Section contains **Multiple Choice Questions**. Each question carries **1 Mark**. All questions are compulsory.

इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Q. 01 Shortcut key to create ledger during voucher entry is -

वाउचर प्रविष्टि के दौरान लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है -

- | | |
|------------|------------|
| a) Alt + D | b) Alt + C |
| c) Alt + E | d) Alt + A |

Q. 02 To view the groups or accounts created in tally, it is used -

टैली में बनाए गए समूह या खातों को देखने के लिए उपयोग की जाती है -

- | | |
|----------|------------|
| a) Alter | b) Display |
| c) View | d) Create |

Q. 03 The shortcut key to enter contra voucher in Tally is -

टैली में कान्ट्रा वाउचर दर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है -

- | | |
|-------|-------|
| a) F5 | b) F6 |
| c) F4 | d) F7 |

Q. 04 Financial statements include -

- | | |
|------------------|------------------------|
| a) Trading A/c | b) Profit and Loss A/c |
| c) Balance Sheet | d) All of these |

वित्तीय विवरण में शामिल है -

- | | |
|-----------------|------------------|
| a) व्यापार खाता | b) लाभ-हानि खाता |
| c) चिट्ठा | d) उपरोक्त सभी |

P.T.O.

Q. 05 The documents on the basis of which the transaction is recorded in the book is called -

- | | |
|-----------------------|------------|
| a) Statement | b) List |
| c) Commercial letters | d) Voucher |

वे दस्तावेज जिनके आधार पर लेन-देन को पुस्तक में दर्ज किया जाता है, कहलाते हैं—

- | | |
|-------------------|----------|
| a) विवरण | b) सूची |
| c) वाणिज्यिक पत्र | d) वाउचर |

[Section - B]

This Section contains **Short Answer Type Questions**. Attempt **any five** questions in this section in 150 words each. Each question carries **7 Marks**.

इस खण्ड में लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं पांच प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

Q. 01 Define profit and loss account in detail with proforma.

लाभ-हानि खाते को प्रोफार्मा के साथ विस्तार से समझाइये

Q. 02 What is Inventory ? Explain the process to create stock item in Tally.

इन्वेन्टरी क्या है ? टैली में स्टॉक आयटम बनाने की प्रक्रिया को समझाइये।

Q. 03 Explain contra and Journal vouchers with example.

कान्ट्रा वाउचर एवं जर्नल वाउचर को उदाहरण सहित समझाइये।

Q. 04 Define Trading Account in detail with proforma.

व्यापार खाते को प्रोफार्मा के साथ समझाइये।

Q. 05 How to create single and multiple stock group in Tally ?

टैली में सिंगल एवं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप का निर्माण कैसे किया जाता है समझाइये ?

Q. 06 Explain the Internal and External user of financial statement.

वित्तीय विवरण के आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता को समझाइये।

Q. 07 Explain Receipt and Payment Voucher with example.

प्राप्ति एवं भुगतान वाउचर को उदाहरण सहित समझाइये।

Cont. . .

Q. 08 What do you mean by Tally ERP 9 Accounting Software ? Explain its characteristics.

टैली ERP 9 अकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं ? इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये।

[Section - C]

This section contains **Essay Type Questions**. Attempt **any two** questions in this section in 350 words each. Each question carries **10 marks**.

इस खण्ड में दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं दो प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 350 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

Q. 09 What is Balance Sheet ? Write the advantages of preparing, Balance Sheet give the proforma of it.

बैलेन्स शीट क्या है ? इसे तैयार करने के लाभ तथा इसके प्रारूप को विस्तार से समझाइये।

Q. 10 What do you mean by Voucher. Explain features and essential elements of vouchers ?

वाउचर से आप क्या समझते हैं ? वाउचर की विशेषता और आवश्यक तत्वों की व्याख्या करो।

Q. 11 What do you mean by Final Statement. Explain objective of preparing financial statement.

वित्तीय विवरण क्या हैं ? वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्यों को विस्तार से समझाइये।

Q. 12 What is Trial Balance. How is it prepared and what are the object of preparing ?

तलपट क्या है ? यह कैसे बनाया जाता है तथा इसे बनाने के उद्देश्य क्या हैं ?

_____○_____